



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 567] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1978/पौष 5, 1900

No. 567] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1978/PAUSA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1978

का०आ० 733(अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (समाप्ति
समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की उपधारा (2) के साथ पठित
धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (राजस्व और बीमा विभाग)
के आदेश सं० का०आ० 41(अ) (सं० 1205/का० सं० 414/2/76-आ० क० (वि०) त रोख
15 जनवरी, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम के नीचे की सारणी में क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ (2) में "श्री धार०
एन० मस्तोत्रा" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "श्री एन० सुप्रमण्यन" शब्द और अक्षर रखे
जाएँगे।

[सं० 8/का० सं० प्रशा० (17)/78-साफेमा]

एन० पी० भट्ट, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 1978

S.O. 733(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (2) of section 27 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S. O. 41(E) [No. 1205/F. No. 414/2/76-IT (Inv.)] dated the 15th January, 1976, namely :—

In the Table below the said notification, in column (2), against Serial No. 2, for the words and letters "Shri R. L. Malhotra", the words and letters "Shri N. Subramanian" shall be substituted.

[No. 8/F. No. Admn.(17)/78-Safema]

N. P. BHAT, Dy. Secy.